



**दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय**  
**CENTRAL UNIVERSITY OF SOUTH BIHAR**  
एस एच - 7, गया - पंचानपुर रोड, ग्राम - करहरा, डाक - फतेहपुर,  
थाना - टिकारी, गया - 824236 (बिहार)

**अवकाश आवेदन पत्र**

1. आवेदक का नाम : .....
2. पद : .....
3. विभाग / केन्द्र / अनुभाग का नाम : .....
4. आवेदित अवकाश की अवधि : ..... से ..... तक (कुल अवकाश दिवस .....)
5. आवेदित अवकाश की प्रकृति : सी0एल0 / ई0एल0 / एच0पी0एल0 / सी0सी0एल0 / आर0एच0 / कार्यावकाश / शैक्षणिक अवकाश / मातृत्व अवकाश / पितृत्व अवकाश (जो लागू हो उसे चिह्नित करें)
6. बाह्य स्थान अवकाश; यदि लागू हो : ..... से ..... तक
7. अवकाश का कारण : .....
8. अवकाश के दौरान पता : .....  
..... दूरभाष नम्बर .....
9. यदि शनिवार / रविवार / अन्य अवकाश, को अवकाश के आरंभ / बाद में जोड़ा जाना प्रस्तावित है .....  
.....
10. अनुपस्थिति के दौरान उत्तरदायित्व के निर्वहन की व्यवस्था : .....

दिनांक: .....

(वैकल्पिक व्यक्ति का हस्ताक्षर)

आवेदक का हस्ताक्षर

वैकल्पिक व्यवस्था सहित विभागाध्यक्ष / केन्द्राध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष की संस्तुति .....

\* अस्वरक्षता प्रमाणपत्र संलग्न है / नहीं है।

विभागाध्यक्ष / केन्द्राध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष

कुलसचिव

**स्थापना विभाग के उपयोग हेतु**

- क. दिनांक ..... को जमा शेष कुल ..... दिन / दिनों की अर्जित अवकाश / अर्द्ध वेतन  
अवकाश / परिवर्तित अवकाश / शिशु देखभाल अवकाश
- ख. उपर्युक्त अवकाश / अवकाशों की कटौती करने के पश्चात आवेदक के अवकाश खाते में .....  
दिन / दिनों की अवकाश शेष है।
- ग. अर्जित अवकाश / अर्द्ध वेतन अवकाश / परिवर्तित अवकाश / आसाधारण अवकाश ..... से .....  
तक ..... दिन / दिनों के लिए अवकाश पर कृपया विचार करते हुए संस्वीकृत किया जाए।

संबंधित सहायक

सहायक कुलसचिव

उपकुलसचिव

संस्तुत / गैर-संस्तुत

संस्वीकृत / असंस्वीकृत

कुलसचिव

कुलसचिव / कुलपति